



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175]
No. 175]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 1983/चैत्र 21, 1905
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 1983/CHAITRA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1983

का. आ. 288(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. 4/3-73-वक्फ तारीख 30 दिसम्बर, 1975 [जो अधिसूचना सं. का. आ. 247, तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के साथ भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (2) तारीख 17 जनवरी, 1978 में प्रकाशित की गई थी] के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 64 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 131(अ) तारीख 9 मार्च, 1982 को अधिकांत करते हुए तथा भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. सं. 105(अ) तारीख 9 फरवरी, 1983 का आंशिक उपांतरण करते हुए श्री नसीम अहमद, कृषि निदेशक, हरियाणा सरकार को, जिस तारीख से वे पद का कार्यभार लेते हैं (श्री अख्तर हुसैन के स्थान पर) पंजाब वक्फ बोर्ड, अम्बाला के प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है और यह निवेश होती है कि उक्त अधिसूचना सं.

का आ 105(अ) तारीख 9 फरवरी, 1983 में “श्री अख्तर हुसैन, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग और पालन किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “श्री नसीम अहमद, कृषि निदेशक, हरियाणा सरकार द्वारा प्रयोग और पालन किया जाएगा” शब्द, श्री नसीम अहमद के पद का कार्यभार संभालने की तारीख से रखे जाएंगे।

2. श्री नसीम अहमद, पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रशासक का पद हरियाणा सरकार को अधीन अपने कृत्यों के अतिरिक्त धारण करेंगे।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
और उनके नाम में

[सं. 4(5)/82-वक्फ]

एन आर. सुब्रह्मण्यन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 1983

S.O. 288(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 64 of the Wakf Act 1954 (29 of 1954), read with the notification of the Government of India in the

Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. 4/3/73-Wakf dated the 30th December, 1975 [published as notification No. S.O. 247 dated the 30th December, 1975, in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th January, 1976 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 131(E) dated the 9th March, 1982 and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 105(E) dated the 9th February, 1983, the Central Government hereby appoints Shri Naseem Ahmed, Director of Agriculture, Government of Haryana, as the Administrator of the Punjab Wakf Board, Ambala (vice Shri Akhtar Husain), with effect from the date he assumes charge and directs that in the said notification No. S.O. 105(E) dated the 9th February, 1983,

for the words "shall continue to be exercised and performed by Shri Akhtar Husain, retired District Judge of Uttar Pradesh", the words "shall be exercised and performed by Shri Naseem Ahmed, Director of Agriculture, Government of Haryana" shall be substituted with effect from the date Shri Naseem Ahmed assumes charge.

2. Shri Naseem Ahmed will hold charge of the post of Administrator of the Punjab Wakf Board in addition to his functions under the Government of Haryana.

By order and in the name of the
President of India.

[No. 4(5)/82-Wakf]

N. R. SUBRAMANYAN, Jt. Secy.